



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



सराहनीय कार्य जनपद फिरोजाबाद 06-08-2022

थाना मखनपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये चोरी किये हुये माल सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना मखनपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान प्रभावी कार्यवाही करते हुये थाना हाजा पर दिनांक 05-08-2022 को पंजीकृत मु0अ0स0 263/22 धारा 379 भादवि मे चोरी किये गये 1,00,000/- में से मुकदमा उपरोक्त मे नामित/ बाँछित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र उग्रसैन निवासी महादेव नगर थाना रामगढ जिला फिरोजावाद को गिरफ्तार करते हुये 90000 रुपये की धनराशि बरामद की गयी । अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त से शेष 10000 रुपये के बारे मे पूछताछ की गयी तो बताया मेरे साथी विकास पुत्र कालीचरन निवासी महादेल नगर थाना रामगढ जिला फिरोजावाद के पास है । अभियुक्त विकास उपरोक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्रयास जारी है । अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुये अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त:-

1. विजय कुमार पुत्र उग्रसैन निवासी महादेव नगर थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. 90000 रुपये नगद ।

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 362/22 धारा 379/411 भादवि थाना मखनपुर, जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष महेश सिंह थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 अनिल कुमार थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
3. म0उ0नि0 भावना चौधरी थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
4. है0का0 02 सहदेव सिंह थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद ।